



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था)

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल :- dean.ind@mp.gov.in

DONATE ORGAN - SAVE LIFE अंगदान करें- जीवन बचाए

क्रमांक/14112 /SS./EST./SR./2025

इंदौर, दिनांक : 06.08.25

विज्ञापित सीनियर रेसिडेन्ट

// सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, इंदौर के अंतर्गत सीनियर रेसिडेन्ट (SR) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नोटिस //

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.क्र./एफ 2-42/07/1/55 भोपाल दिनांक 17.12.2021 एवं म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.क्र.एफ/2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 एवं पृ.क्र./242/2007/1/55 पार्स भोपाल दिनांक 12.01.2024 के द्वारा शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय इन्दौर के अंतर्गत स्वीकृत सीनियर रेसिडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन प्रत्येक शुक्रवार को आमंत्रित किए जाते हैं :-

सीनियर रेसिडेन्ट (निश्चित वेतन रु. 88,210/- प्रतिमाह)

S.No.	Department	Vacancy with category					
		Total Vacant post	UR	ST	SC	OBC	EWS
1	NEPHROLOGY	7	2	1	1	2	1
2	SURGICAL GASTROENTEROLOGY	5	1	2	1	1	0
3	NEUROLOGY	6	2	1	1	1	1
4	NEUROSURGERY	3	0	1	1	1	0
5	CARDIOLOGY	5	1	2	1	0	1
6	CTVS	5	1	1	1	2	0
7	MEDICAL GASTROENTEROLOGY	4	0	2	0	1	1
8	PLASTIC SURGERY	3	0	0	1	2	0
9	PAEDIATRIC SURGERY	4	1	1	1	1	0
10	ANAESTHESIA	3	0	2	0	1	0
11	ICU	9	1	2	2	3	1
	TOTAL	54	9	15	10	15	5

नोट :-इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति ,01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करें। आवेदक स्क्रूटिनी हेतु कार्य दिवस प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के ऑडिटोरियम हॉल में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।

साक्षात्कर हेतु कार्य प्रत्येक शुक्रवार को साक्षात्कर का समय सुबह 12.00 बजे से 2.00 बजे चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के ऑडिटोरियम हॉल में नियत किया जाता है, आवेदक आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसिडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायेगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे उक्त अवधि के पूर्ण सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जाएगी ,और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

चयनीत उम्मीदरों को 1 महीने के अंदर MPMC में Additional Registration रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर आवेदन की रसीद जमा करवानी होगी तत्पश्चात ही वेतन आहरण किया जायेगा।

वॉक -इन -इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें :-

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- अवधि : सीनियर रेसिडेन्ट्स की सेवा-अवधि (Tenure) एक वर्ष की होगी। इनकी प्रथम 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने एवं आवश्यकता अनुसार 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

(डॉ. अरविंद घनघोरिया)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गाँ स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था)
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल :- dean.ind@mp.gov.in

DONATE ORGAN - SAVE LIFE अंगदान करें- जीवन बचाए

- नियुक्ति का तरीका:-योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डी.एम./एम.सी.एच सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों, अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- आवेदन शुल्क :- सीनियर रेसीडेन्ट्स/जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 600/- (छःसौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- (तीन सौ) राशि का भुगतान NEFT/ RTGS. ,Dean, mgm medical college Indore, bank account no-53003590071 ,IFSC code no. SBIN0030359) के माध्यम से करते हुए भुगतान की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करे, किसी भी अवस्था मे राशि लौटायी नहीं जावेगी।
- शैक्षणिक योग्यता - (एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी) :-
 - आई.सी.यु विभाग के लिए मेडिसिन/आपातकालीन/एनेस्थेसिया/रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - न्यूरोलॉजी विभाग, नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए मेडीसिन/पीडियाट्रिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - मेडिकल गेस्ट्रोएंट्रोलाजी विभाग, एवं कार्डियोलॉजी विभाग के लिए मेडीसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - यूरोलॉजी विभाग, सी.टी.वी.एस विभाग, सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलाजी विभाग, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोसर्जरी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिए सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - एनेस्थेसिया विभाग के लिए एनेस्थेसिया में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - आपातकालीन विभाग के लिए सर्जरी/मेडिसिन/आर्थोपेडिक/रेस्पिरेटरी मेडिसिन/एनेस्थेसिया/आपातकालीन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
 - अन्य संबंधित विषय में एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. परीक्षा उत्तीर्ण।

सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनोंक से पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

- यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- आयु सीमा:-साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तें :

इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित, सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्तकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान/सी.एम.ओ ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
- यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

क्रमांक / /SS./EST./SR./2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लाइब्रेरी।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
4. संचालक, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय इंदौर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चरपा करने हेतु।

(डॉ. अरविंद घनघोरिया)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गँ स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था इन्दौर (म.प्र.)

इंदौर, दिनांक :-

06.8.25

(डॉ. अरविंद घनघोरिया)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गँ स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था इन्दौर (म.प्र.)

आयुष्याता एव नृष्य कायपालन आधकारः
मृ.गौ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबन्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर
सीनियर रेसिडेंट के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र


आवेदित पद _____ विभाग _____

नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. बैंक ड्राफ्ट-क्रं. _____

दिनांक _____ राशि _____

बैंक का नाम _____



2. आवेदक का नाम _____

3. पुरुष/महिला _____

4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) _____

5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित) _____

शहर का नाम _____ फोन नं. _____

मोबाइल नं. _____

6. स्थाई पता _____

शहर का नाम _____ फोन नं. _____

मोबाइल नं. _____

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करे)

8. आज दिनांक को आवेदक की आयु _____ दिन _____ माह _____ वर्ष

9. वर्ग: सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग _____

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे)

10. मेडिकल कार्डिनसल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक _____ (एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस)

11. इंटर्नशीप पूर्णता की दिनांक _____

12. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस.उत्तीर्ण करने का दिनांक :- _____

13. शैक्षणिक योग्यताये- (प्रमाण पत्र एवं एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे)

क्र.	परीक्षा का नाम	तारिख/घोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	एम.बी.बी.एस.के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS First Proof.						
2	MBBS Second Proof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/Diploma						

(प्रत्येक वर्ष का प्रथम-प्रथम करे)

नोट-प्रत्येक परीक्षा के प्रयास(Attempt)प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करे।

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची _____

स्थान _____

दिनांक _____

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// प्रमाण पत्र //

मे प्रमाणित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णत सत्य है, जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वशासी समिति मृ.गौधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

M.G.M MEDICAL COLLEGE, INDORE

CHECKLIST FOR POST OF _____

Subject

Name of Candidate

Category

Age

List of documents to be checked:

1. Date of Birth (High School Marksheet)

2. MBBS mark sheet, - Marks obtained

Attempts

I Prof

II Prof

Pre-Final

Final

Total

%

3. MBBS Degree

4. M.D.

Attempts if any

5. M.D./M.S. Degree/Diploma

6. Extra qualification

7. Post P.G. Teaching Experience

8. Publication in indexed journals Nos.

9. Cast Certificate

10. Domicile Certificate (M.P.)

11. M.B.B.S. Registration No. (State)

(State Council)

12. M.D. Registration No. (State)

(State Council)

13. Employer's NOC.

Declaration: I hereby declare that I am working /not working in any Govt./Semi Govt. Institution at present.

Remark

(name & signature of candidate)

UNDERTAKING

I Dr. _____ hereby declare that I have cleared my M.B.B.S examination in following attempts: First Prof _____ Second Prof Final Prof _____ (Part-1) _____ Final Prof (Part-1) Final Prof (Part-II) _____ & MD/MS examination in _____ attempt.

In case the candidate is not registered with Medical Council (M.P./MCI)

I Will submit my Medical Council Registration it at the time of joining
All the information given by me is true & correct and if any information is found to be incorrect or if I could not submit my registration certificate, my selection for the post of _____ Resident can be cancelled

Name & Signature of the Candidate